



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 718) पटना, बुधवार, 7 सितम्बर 2016

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

अधिसूचनाएं
1 सितम्बर 2016

एस0ओ0 206, दिनांक 7 सितम्बर 2016—चूँकि गृह विभाग (विशेष शाखा) की अधिसूचना संख्या 08/प्र0सं0को0/2015-650/प्र0सं0को0, दिनांक 23.08.2015/01 सितम्बर, 2015 द्वारा लोक महत्व के विषय अर्थात् दिनांक 21.08.2015 को राजकीय अतिथिशाला में लिफ्ट के फँस जाने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के लिए बिहार के राज्यपाल ने कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट-1952 (स0-60/1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री शिशिर सिन्हा तदेन प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग सम्प्रति विकास आयुक्त, योजना विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा दिनांक 22.01.2016 को अपना जांच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जा चुका है तथा दिनांक 23.01.2016 के प्रभाव से राजकीय अतिथिशाला, पटना में लिफ्ट फँस जाने की जाँच हेतु गठित जाँच आयोग को विघटित किया जा चुका है।

2. आयोग द्वारा विभाग को समर्पित जाँच प्रतिवेदन की उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि निम्नांकित बिन्दुओं पर भी स्पष्ट प्रतिवेदन की आवश्यकता है—

I. लिफ्ट फँसने की घटना का विस्तृत ब्यौरा तथा

II. घटना घटित होने का स्पष्ट कारण

3. अतः उपर्युक्त कंडिका 2 में उठाये गये बिन्दुओं की जाँच हेतु बिहार के राज्यपाल कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट-1952 (स0-60/1952) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुनः निम्न प्रकार जाँच आयोग का गठन करते हैं—

(I)	श्री शिशिर सिन्हा विकास आयुक्त, बिहार, पटना	—	अध्यक्ष
(II)	श्री अमृत लाल मीणा प्रधान सचिव, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य सचिव
(III)	श्री प्रत्यय अमृत प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना	—	सदस्य
(IV)	श्री सुनील कुमार अपर पुलिस महानिदेशक (विशेष शाखा), बिहार, पटना	—	सदस्य

4. उक्त अधिनियम की धारा-5(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल यह भी निदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा- 5 की उप-धारा (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबंध आयोग पर लागू होंगे।
5. आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किया जाएगा।

(सं० बी०/वि० आयोग-01/2015-8461/सी०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

1 सितम्बर 2016

एस०ओ० 207, एस०ओ० 206, दिनांक 7 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(सं० बी०/वि० आयोग-01/2015-8461/सी०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जितेन्द्र कुमार,

सरकार के विशेष सचिव।

The 1st September 2016

S.O. No. 206 dated 7th September 2016—Whereas vide Home Department (Special Branch) Notification No.-08/P.S.C/2015-650, Dated 23/08/2015/ 01/09/2015, the Governor of Bihar was pleased to constitute a Inquiry Commission under the Commission of Inquiry Act, 1952 (No. 60, 1952) for inquiring into the trapping in lift incident occurred in the night of 21/08/2015 at State Guest House, Patna under the chairmanship of Shri Shishir Sinha, then Principal Secretary, Cabinet Secretariat Department now Development Commissioner, Planning & Development Department, Bihar, Patna. The Commission has submitted its final inquiry report to the government on 22.01.2016. Therefore, in the circumstances, the constituted inquiry Commission for inquiring into the trapping in Lift incident in State Guest House, Patna has been dissolved w.e.f. 23.01.2016.

2. During the high level examination of the report submitted by Inquiry Commission to the Government, it is required that there should be clear opinion of the Commission on the following points-

- (I) Details of Lift Trapping incident and
- (II) The obvious reason of occurrence.

3. Therefore, the Governor of Bihar Exercising of power conferred under the Commission of Inquiry Act, 1952 (60s, 1952) is pleased to constitute again an Inquiry Commission as under for Inquiry into the points in above mentioned para-2 –

- | | | | |
|-------|--|---|------------------|
| (I) | Shri Shishir Sinha
Development Commissioner,
Planning & Development Department,
Bihar, Patna. | - | Chairman |
| (II) | Shri Amrit Lal Meena
Principal Secretary
Building Construction Department
Bihar, Patna | - | Member Secretary |
| (III) | Shri Pratay Amrit
Principal Secretary
Energy Department
Bihar, Patna | - | Member |
| (IV) | Shri Sunil Kumar
Additional Director of Police
(Special Branch), Bihar, Patna | - | Member |

(4) The Governor of Bihar is further pleased to exercise powers conferred by sub-section 5 of the said Act to direct that all the provisions of sub-section (2) (3) (4) and (5) of the said Act shall apply to this Commission.

(5) The Commission shall submit its report to the Government within one month from the date of this notification.

(No. B/Misc. Commission-01/2015-8461/C)

By order of the Governor of Bihar,

JITENDRA KUMAR,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 718-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>